


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2016/श्रावण 10, 1938

No. 529]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2016/SRAVANA 10, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 750(अ).—केन्द्र सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2009 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमित करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) “सूचना” से नियम 3 के अंतर्गत उद्यम द्वारा प्रस्तुत किसी सूचना से अभिप्रेत है और इसमें हार्डकापी या सॉफ्ट कापी में कोई आंकड़ा या दस्तावेज शामिल है।

(2) इन नियमों में जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को प्रयुक्त किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके अधिनियम में क्रमशः निर्धारित अभिप्राय होंगे।

3. सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इन नियमों से उपाबद्ध प्रपत्र में सरकार को अपने उद्यम से संबंधित सूचना प्रस्तुत करेंगे।

4. नियम 3 में उल्लिखित सूचना www.msmedatabank.in पर उसके द्वारा अनुरक्षित डाटा बैंक में केन्द्र सरकार को ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

[फा. सं. 9(8)/2016-एसएमई]
मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

प्रपत्र
(नियम 3 देखें)



डाटा बैंक

मूल विवरण

- आधार संख्या: * _____
 - उद्योग आधार संख्या: * उद्योग आधार प्राप्त करना _____
 - पैन संख्या: * _____
 - मान्य बटन दबाएं और विवरण प्राप्त करना: * मान्य यूएएन
 - उद्यम का नाम: * _____
 - श्रेणी इकाई का आकार: * _____
 - संगठन का प्रकार: * _____
 - मुख्य गतिविधि: * _____
 - राज्य: * _____
 - जिला: * _____
 - पिन कोड: * _____
 - प्रारंभ की तिथि: * _____
 - ईमेल आईडी: * _____ -
 - मोबाइल नंबर: * _____
 - पत्राचार का पता: * _____
 - उद्यम की सामाजिक श्रेणी: * _____
 - प्राधिकृत व्यक्ति का नाम: * _____
 - प्रचालन की प्रकृति: * _____
 - क्लस्टर का नाम (यदि कोई हो): _____
 - वेबसाइट: _____
 - उद्यमी कीकोई विशेष श्रेणी
- () भूतपूर्व सैनिक () विकलांग व्यक्ति () महिला () अल्पसंख्यक

•() कारखाना अधिनियम 1948 में पंजीकृत है?

•() इकाई एक अनुषंगी है?

•() दुकान और स्थापना अधिनियम में पंजीकृत है?

यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उसका उल्लेख करें _____

कारखाना और उत्पाद विवरण

• उद्यम का पता: * _____

राज्य: * _____ जिला * _____

पिन कोड: * _____

• नियोजितव्यक्ति: * _____

संस्थापित क्षमता (प्रति वर्ष): *

मात्रा _____ इकाई: _____

• मशीनरी/प्लांट में निवेश(लाख रुपये में): * _____

• विद्युत भार: *

एच.पी. : _____ किलोवाट : _____

• उद्यम उत्पाद विवरण: _____ -

• प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल:

1. _____ 2. _____ 3. _____

• मुख्य क्रेता: _____

• पिछले वर्षका कारोबार(रुपये लाख में): * _____

• अधिक उत्पादों को अपलोड करें: (अपलोड पीडीएफ / डॉक फाइल अधिकतम आकार सीमा 1 एमबी है)

उत्पाद विवरण जोड़े

उत्पाद का नाम _____ उत्पाद कोड _____

उत्पादन क्षमता _____ उत्पादन मापन इकाई _____ (जोड़े)

कृपया मान्य इकाई उपलब्ध कराएं

'सत्यापन और क्षमता प्रमाणन' के लिए कृपया यहां क्लिक करें

अन्य विवरण

बैंक का नाम : _____

बैंक खाता सं _____ आईएफएससी कोड: _____

सहायता विवरण जोड़ें

दिनांक _____ को योजना का नाम _____ से ली गई _____ (जोड़े)
 एसोसिएशन विवरण जोड़े
 दिनांक _____ से एसोसिएशन का नाम _____ (जोड़े)

विकास संगठन द्वारा पथ प्रदर्शन (यदि लागू हो)

चयनित कार्यालय का नाम: _____

प्रशंसा / पुरस्कार विवरण जोड़े

प्रशंसा / पुरस्कार का नाम _____ विवरण _____

दिनांक _____ (जोड़े)

अतिरिक्त अपेक्षाएं

1. आप अपने संगठन / कारखाने में सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं?

_____ (एच.पी.) _____ (किलोवाट)

यदि नहीं, तो क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? _____ (एच पी)

_____ (किलोवाट)

2. क्या आपने अपनी इकाई के लिए ऊर्जा ऑडिट कराया है? _____

3. क्या आप संयुक्त उद्यम है? _____

यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें। _____

यदि नहीं, तो आप संयुक्त उद्यम की योजना बनाना चाहते हैं? _____

4. क्या आप निर्यात कर रहे हैं? _____

यदि हाँ, देश का नाम बताएं 1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____

5. क्या आपकी विदेशी मेलों में दिलचस्पी होगी? _____

6. क्या आपका अपना खुद का ब्रांड है? _____

यदि हाँ तो कृपया ब्रांड का नाम बताएं _____

7. क्या आपकी विपणन सहायता स्कीम का लाभ उठाने में रुचि होगी? _____

8. क्या आपका सरकारी खरीद में भाग लेने का विचार है? _____

9. क्या आप प्रौद्योगिकी उन्नयन करना चाहते हैं? _____

यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें _____

10. क्या आप प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहते हैं? _____

यदि हाँ, तो देश का उल्लेख करें। _____ विवरण _____

11. क्या आपका अन्य एमएसई को अपनी प्रौद्योगिकी अंतरित करने का विचार है?

_____ कृपया उल्लेख करें _____

12. क्या आपका उद्यम आईएसओ प्रमाणित है? _____

13. क्या आपके उद्यम के पास गुणवत्ता प्रमाणन है? _____ कृपया उल्लेख करें

14. क्या आपकी ऋण सुविधा में रुचि होगी? _____

15. क्या आपको कभी काली सूची में डाला गया है? _____

सभी (*) चिह्नित क्षेत्र अनिवार्य हैं

* _____ यह प्रमाणित किया जाता है जहाँ तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, डाटा बैंक में प्रस्तुत सूचना सत्य एवं सही है।

_____ क्या आप रियायती प्रीमियम के साथ बीमा का लाभ उठाना चाहेंगे?

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi the 29th July, 2016

G.S.R. 750(E).—In exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) Rules, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Furnishing of Information) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) “information” means any information furnished by an enterprise under rule 3 and includes any data or document in hard copy or soft copy.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. All micro, small and medium enterprises shall furnish the information relating to their enterprise to the Government in the Form annexed to these rules.

4. The information referred to in rule 3 shall be furnished online to the Central Government in the data bank maintained by it at www.msmedatabank.in.

[F. No. 9(8)/2016-SME]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

FORM
(See rule 3)



Data Bank

Basic Details

- Aadhaar Number: * _____
- UdyogAadhaar Number: * Get UdyogAadhaar _____
- PAN Number: * _____
- Button to Validate and Get Details: * Validate UAN
- Enterprise Name: * _____
- Category Unit Size: * _____
- Organization Type: * _____
- Major Activity: * _____
- State:* _____
- District: * _____
- Pin code: * _____
- Commencement Date: * _____
- Email ID: * _____
- Mobile Number: * _____
- Communication Address: * _____
- Enterprise Social Category: * _____
- Authorised Person Name: * _____
- Nature of Operation: * _____
- Cluster Name (If Any): _____
- Website: _____
- Any Special Category of Entrepreneur

() Ex-Serviceman () Person with Disability () Woman () Minority

- () Registered in the Factory Act 1948?
- () Unit is an Ancillary?
- () Registered in Shop and Establishment Act?

If any other, please specify _____

Factory and Product Details

- Enterprise Address : * _____
State: * _____ District * _____
Pin Code: * _____
- Person Employed: * _____

Installed Capacity (Per Annum): *

Quantity: _____ Unit: _____

- Investment on Machinery/Plant (Rs. in lacs): * _____
- Power Load: *
H.P.: _____ K.W.: _____
- Enterprise Product Description: _____
- Major Raw Material used:
1. _____ 2. _____ 3. _____
- Major Buyers: _____
- Turnover Last year (Rs. in lacs): * _____
- Upload more products: (Upload pdf/doc file max size limit is 1 MB)

Add Product Details

Product Name _____ Product Code _____
 Production Capacity _____ Production measurement unit _____ (Add)
 Please provide valid unit

For 'Verification and Capacity Certification', Please click here

Other Details

Bank Name : _____
 Bank Account No. _____ IFSC Code: _____

Add Assistance Details

Taken From _____ Scheme Name _____ on date _____ (Add)

Add Association Details

Association Name _____ Since date _____ (Add)

Hand Holding by Development Organisation(If Applicable)

Select Office Name: _____

Add Appreciation/Award Details

Appreciation/Award Name _____ Details _____
 On Date _____ (Add)

Additional Requirements

1. Are you using Solar Energy in your organisation/Factory?
 _____ (H.P.) _____ (K.W.)
 If No, do you wish to use it? _____ (H. P.) _____ (K. W.)
2. Have you got energy audit done for your unit? _____
3. Do you have Joint Venture? _____
 If YES, Please provide details. _____

- If No, Do you wish to plan Joint Venture? _____
4. Are you exporting? _____
 If Yes, Please provide country name 1. _____ 2. _____ 3. _____
 4. _____
5. Will you be interested in foreign fairs? _____
6. Do you have our own brand? _____
 If yes please provide Brand name _____
7. Will you be interested in availing Marketing Assistance Scheme? _____
8. Do you intend to participate in Public procurement? _____
9. Do you wish to upgrade Technology _____
 If Yes please specify _____
10. Do you wish to import Technology? _____
 If YES, Please specify country. _____ Details _____
11. Do you intend to transfer your Technology to other MSEs?
 _____ Please specify _____
12. Is your enterprise ISO certified? _____
13. Is your enterprise has quality certification? _____ Please specify

14. Will you be interested in Credit facilitation? _____
15. Have you ever been Black listed? _____

All (*) marked fields are mandatory

* _____ This is to certify that the information furnished in the Data bank is true and correct to the best of my knowledge and belief.

_____ Would you like to avail insurance with discounted premium?